

Aayush Food and Herbs Limited

CIN: L01122DL1984PLC018307
 Regd. Office: 55, 2nd Floor, Lane 2, Westend Marg, Saidulajab, Near Saket Metro Station, New Delhi, Delhi 110030 | Phone: 011-41009092 | Email: aayushfoodherbs@gmail.com | Website: www.aayushfoods.com

Extracts of the statement of Un-Audited Financial Results for the quarter ended on June 30, 2023.

Particulars	Standalone		
	Quarter ended 30.06.2023	Year ended 31.03.2023	Quarter ended 31.06.2022
	(Un-Audited)	(Audited)	(Un-Audited)
Total income from operations (net)	17.350	142.400	522.570
Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional items)	8.990	(30.490)	31.610
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	8.990	(30.490)	31.610
Net Profit / (Loss) for the period after tax	8.990	(30.220)	23.390
Paid-up Equity Share Capital (Share of Rs. 5/- each)	324.500	324.500	324.500
Earning per equity share			
Basic	0.277	(0.931)	0.721
Diluted	0.277	(0.931)	0.721

Notes:
 The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Un-audited Financial Results for the quarter and financial year ended is available on the website of the Stock Exchange i.e. BSE India (www.bseindia.com) and Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in).
 Figures of the previous year have been re-grouped/ re-arranged / re-classified wherever considered necessary.

By Order of the Board
 For Aayush Food and Herbs Limited
 Sd/-
 Naveenakumar Kunjara
 DIN: 07087891
 Managing Director

Date: 04/08/2023
 Place: New Delhi

INDIA GLYCOLS LIMITED

Regd. Office: A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur - 244 713, Distt. Udham Singh Nagar (Uttarakhand)
 Phone: +91 5947 269000/269500, Fax: +91 5947 275315/269535
 Email: compliance.officer@indiaglycols.com; Website: www.indiaglycols.com • CIN: L24111UR1983PLC009097

Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2023 (₹ In Crore, except as stated)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total income from operations	1,898.17	1,619.74	1,875.04	6,668.45	1,899.44	1,620.12	1,873.97	6,665.53
2	Profit before Interest, depreciation and Tax (EBDITA)	101.22	100.93	70.43	325.11	105.81	100.48	68.70	319.42
3	Net profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	53.11	45.90	29.90	140.27	57.70	44.33	25.29	125.50
4	Net profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	53.11	45.90	29.90	122.70	57.70	44.33	25.29	153.63
5	Net profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	40.53	40.10	22.81	98.74	51.14	39.84	27.59	141.04
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	40.56	40.41	22.82	99.08	50.96	40.58	27.36	141.44
7	Equity Share Capital	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96
8	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet				1,556.65				1,870.46
9	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (Not Annualised) - Basic & Diluted (In ₹)	13.09	12.95	7.37	31.89	16.52	12.87	8.91	45.55

Notes:
 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchanges Websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.indiaglycols.com).

for INDIA GLYCOLS LIMITED
 Sd/-
 U.S. BHARTIA
 Chairman and Managing Director
 DIN: 00063091

Place : Noida
 Date : 7th August, 2023

NAMOKAR TRADE (INDIA) LIMITED

CIN: L51909WB1985PLC039407
 Regd. Office : DIAMOND ARCADE, 5TH FLR, FL-504, 59 JESSORE ROAD, KOLKATA-700001
 Email: ratan.namokar@gmail.com, Website: www.namokartrade.com

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30-Jun-2023 (Unaudited)	Year ended 31-Mar-2023 (Audited)	Quarter ended 30-Jun-2022 (Unaudited)
1	Total Income from operations (net)	7.68	64.09	18.38
2	Net Profit / (Loss) for the quarter / year (before tax, Exceptional and for Extra ordinary items)	(5.83)	9.33	(3.21)
3	Net Profit / (Loss) for the quarter / year (before tax after Exceptional and for Extraordinary items)	(5.83)	9.33	(3.21)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and for Extra ordinary items)	(5.83)	6.90	(3.21)
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(5.83)	6.90	(3.21)
6	Equity Share Capital	240.85	240.85	240.85
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.			
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
	Basic :	(0.24)	0.03	(0.13)
	Diluted :	(0.24)	0.03	(0.13)

Notes:
 a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity www.namokartrade.com.
 b) Ind AS compliant Financial Results for the quarter ended June 30, 2023 and published year to date figures for the quarter ended of the relevant years which were subject to limited review. For and on behalf of the Board of Directors
 RATAN LAL BAJAJ
 (DIN:07064481)
 Managing Director

Date: August 7, 2023
 Place: Kolkata

CAPLIN POINT LABORATORIES LIMITED

CIN: L24231TN1990PLC019053
 Registered office : 3rd Floor, "Ashvich Towers", No.3, Developed Plots Industrial Estates, Perungudi, Chennai 600 096.
 Phone No.044-2496 8000. Website - www.caplinpoint.net, email ID - compliance.officer@caplinpoint.net

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2023, PREPARED IN COMPLIANCE WITH INDIAN ACCOUNTING STANDARDS (Rs. in Crs)

Sl. No.	Particulars	Consolidated			
		Quarter ended		Financial Year ended	
		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
		(1)	(2)	(3)	(4)
1	Total Income	407.36	400.68	360.27	1,522.71
2	Net Profit / (Loss) for the period before share of profit in Associate, Tax, Exceptional and / or Extraordinary items	126.91	123.97	105.09	451.27
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	126.99	124.05	105.09	451.35
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	104.23	101.24	86.31	376.99
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	101.90	95.90	108.37	419.74
6	Equity Share Capital	15.19	15.18	15.16	15.18
7	Other Equity (excluding Non Controlling Interest) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	1,865.30
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	1. Basic: (in Rupees)	13.62*	13.45*	11.21*	49.62
	2. Diluted: (in Rupees)	13.55*	13.33*	11.21*	49.18

Notes:
 1. Key numbers of Standalone Results are as under:

Particulars	Quarter ended			
	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
	(1)	(2)	(3)	(4)
Total Income	200.93	156.89	151.36	627.61
Profit Before Tax	97.19	70.77	74.70	293.15
Profit After Tax	76.27	54.33	63.24	234.26

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the website of stock exchanges viz. BSE Limited (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the Company's website (www.caplinpoint.net).
 3. The Audited financial results have been reviewed by the Audit Committee of the Board and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 07th August, 2023.

For Caplin Point Laboratories Limited
 Dr Sridhar Ganesan
 Managing Director

Place : Chennai
 Date : 07th August, 2023

VIVRITI CAPITAL LIMITED

(formerly known as Vivriti Capital Private Limited)
 CIN-U65929TN2017PLC117196
 Regd. Office: Prestige Zackria Metropolitan N. 2001-1-8, 2nd Floor, Block -1, Annasalai, Chennai - 600002

Unaudited Standalone Financial Results for the quarter ended 30th June 2023
 Regulation 52 (B), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Sl. No.	Particulars	Quarter ending June 30, 2023	Quarter ending June 30, 2022	Year ending March 31, 2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
		(1)	(2)	(3)
1	Total Income from Operations	21,608.29	13,645.90	65,315.13
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6,986.53	3,920.69	17,284.47
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6,986.53	3,920.69	17,284.47
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,186.31	2,914.11	12,929.75
5	Total Comprehensive Income for the period Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	5,022.31	2,457.28	12,420.53
6	Paid up Equity Share Capital	1,708.72	1,695.54	1,708.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	30,444.43	13,676.59	24,780.72
8	Securities Premium Account	121,082.46	120,843.65	120,983.51
9	Net worth	162,237.82	145,217.98	156,474.55
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	503,793.98	366,360.75	501,988.84
11	Outstanding Optionally convertible redeemable preference shares	-	-	-
12	Debt Equity Ratio	2.94	2.37	3.07
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic:	30.34	18.51	77.09
	2. Diluted:	5.45	3.08	13.49
14	Capital Redemption Reserve	Nil	Nil	Nil
15	Debt Redemption Reserve	Nil	Nil	Nil
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA

Notes:
 a) The above is an extract of the detailed format of the quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchange (BSE: www.bseindia.com) and the Company's website (www.vivriticapital.com).
 b) For the items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange (BSE) and can be accessed on the URL (www.bseindia.com).

For Vivriti Capital Limited
 (formerly known as Vivriti Capital Private Limited)
 Sd/-
 Vineet Sukumar
 Managing Director
 DIN: 06848801

Place : Chennai
 Date : 05 August, 2023

SBI

IT-ePay&PG Department, SBGITC, Belapur, Sector 11, C.B.D. Belapur, Navi Mumbai - 400614

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) FOR ENGAGEMENT OF SERVICE PROVIDER FOR PROVIDING

"ACCESS CONTROL SERVER (ACS) OR ISSUER AUTHENTICATION SERVER (IAS) SERVICES FOR STATE BANK DEBIT AND PREPAID CARDS"

State Bank of India has issued a 'Request for Proposal' for engagement of service provider for providing Access Control Server (ACS) or Issuer Authentication Server (IAS) services for State Bank Debit and Prepaid cards. Please see 'Procurement News' at Bank's website <https://bank.sbi>. Interested applicants may submit their responses to undersigned on or before date 31.08.2023 by time 06:00pm.

Place: Navi Mumbai
 Date: 08.08.2023

Sd/-
 Dy. General Manager (IT-ePay&PG)

Ujjivan

Build a Better Life
 Ujjivan Financial Services Limited
 L6S999KA2004PLC035529
 Registered Office: Grape Garden, No. 27, 3rd A Cross, 18th Main, 6th Block, Koramangala, Bengaluru 560095 Phone: +91 80 4071 2121 Email: compliance@ujjivanfn.com

Statement of Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2023 (₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended
		June 30, 2023	June 30, 2022	March 31, 2023
		Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from Operations (Net)	1,37,505	1,00,767	4,42,134
2.	Net Profit / (Loss) (before tax, exceptional and / Extraordinary items)	40,752	37,992	1,53,080
3.	Net Profit / (Loss) before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	40,752	37,992	1,53,080
4.	Net Profit / (Loss) after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	29,841	29,527	1,14,029
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	29,761	29,526	1,14,183
6.	Paid up Equity Share capital	12,168	12,168	12,168
7.	Reserves (excluding revaluation reserves)	-	-	-
8.	Earnings per Share (EPS)			
	Basic (₹):	18.07	20.23	73.20
	Diluted (₹):	18.07	20.23	73.20

Key numbers of standalone results are as under:

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended
		June 30, 2023	June 30, 2022	March 31, 2023
		Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from Operations (Net)	1,436	170	12,725
2.	Profit Before Tax	1,362	91	12,412
3.	Profit After Tax	1,172	68	10,816

Notes:
 1. The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on August 07, 2023.
 2. The above is an extract of the detailed format of quarterly / annual financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter ended June 30, 2023 is available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the company's website www.ujjivan.com.
 3. These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standard ("Ind AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended).

By order of the Board
 For Ujjivan Financial Services Limited
 Sd/-
 Samit Ghosh
 Non-Executive Chairman
 DIN: 00185369

Place: Bengaluru
 Date: August 07, 2023
 www.ujjivan.com

NTPC Limited

(A Govt. of India Enterprise)
 CIN: L40101DL1975GOI007966
 Regd. Office: NTPC Bhawan, SCOPE Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi- 110003
 Tel. no.: 011-24360959; Fax: 011-24360241
 Email: ntpccc@ntpc.co.in; Website: www.ntpc.co.in

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF NTPC LIMITED IN RESPECT OF THE 47TH ANNUAL GENERAL MEETING

1. Notice is hereby given that the 47th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, 30th August, 2023 at 10:30 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the business as stated in the notice dated 29th July, 2023.
 2. In line with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India, Integrated Annual Report including Notice of 47th AGM, Standalone and Consolidated Financial Statements, Auditors' Report and Directors' Report for the financial year ended 31st March, 2023 has been sent to the shareholders of the Company through emails at their registered e-mail addresses. Notice of the 47th AGM and Integrated Annual Report are available on the Company's website viz. www.ntpc.co.in and on websites of stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. Notice shall also be available on the e-voting website of National Securities Depository Limited (NSDL) i.e. <https://www.evoting.nsdl.com/>.
 3. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its Members enabling them to cast their vote electronically for the resolutions as set in the AGM Notice dated 29th July 2023 through the e-voting services provided by NSDL.
 4. The remote e-voting period will commence on **Saturday, 26th August, 2023 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Tuesday, 29th August, 2023 at 5:00 P.M. (IST)**. The e-voting module shall be disabled by NSDL, for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The detailed procedure / instruction for remote e-voting are contained in the Notice of AGM.
 A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the **cut-off date i.e. Wednesday, 23rd August, 2023** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting at the AGM.
 5. Any person becoming the member of the Company after the dispatch of Notice of AGM but on or before the cut-off date can also cast their vote by following the instructions of remote e-voting and e-voting at AGM as contained in the Notice of AGM.
 6. A member may participate at the AGM through VC/OAVM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to cast their vote again. Members may note that the facility of e-voting shall be made available at the AGM.
 7. The Board of Directors has appointed Shri Sachin Agarwal, Partner, Agarwal S. & Associates or in his absence Ms. Garima, Partner, Agarwal S. & Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer, for conducting the e-voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
 8. Members are requested to read the instructions pertaining to remote e-voting as printed in the AGM notice carefully. In case you have any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting User manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or may contact Ms. Pallavi Mhatre (Sr. Manager), NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, Email: evoting@nsdl.co.in, Tel: 022-48867000/022-24997000.
 9. To support green initiative, members who have not registered their e-mail address so far or who want to update their e-mail address, are requested to approach their respective DP (for demat holding) or with Beetal Financial & Computer Services Pvt Limited (for physical holding), for receiving all communications electronically.

For and on behalf
 NTPC Limited
 Sd/-
 (Arun Kumar)
 Company Secretary

Place: New Delhi
 Date: 06.08.2023

Leading the Power Sector

CSL FINANCE LIMITED

Regd. Office: 410-412, 18/12, 4th Floor, W.E.A. Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005
 Corp. Office: 716-717, 7th floor, Tower B, World Trade Tower, Noida, Sector-16, U.P.-201301
 CIN: L74899DL1992PLC051462; Tel: 0120-4290654; Email: info@csfinance.in;
 Web: www.csfinance.in

Revenue 05% PAT 12%

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023
 Amount (Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended		Year ended	
	30-Jun-23 Un-audited	31-Mar-23 Un-audited	30-Jun-22 Un-audited	31-Mar-23 Audited
Total income from operations	3592.00	3359.00	2504.79	11723.69
Net Profit/(loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1818.80	1641.57	1419.92	6153.13
Net Profit/(loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1818.80	1641.57	1419.91	6153.13
Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1324.81	1189.66	1063.88	4562.84
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	1324.81	1191.68	1063.87	4564.86
Paid up Equity Share Capital	2035.47	2023.84	2030.34	2023.84
Reserves (excluding Revaluation reserve)			31183.67	34228.13
Securities Premium Account				7313.68
Net Worth				37706.29
Debt Equity Ratio	0.96	1.13	0.78	1.13
Earnings per share (Face value of Rs. 10/- each) (

KEMP & COMPANY LIMITED
 Regd. Office: DGP House, 5th Floor, 88-C, Old Prabhadevi Road, Mumbai - 400 235
 CIN: L24239MH1982PLC00047
 TEL: 022 66539000 FAX: 022 66539089
 Email: kemp-investor@kempnco.com WEB: www.kempnco.com

Extract of statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June 2023

Sr. No.	Particulars	For the Quarter Ended			(₹ In Lakhs)
		30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Unaudited)	30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	82.29	227.99	80.80	564.41
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	(20.56)	116.53	(26.77)	129.78
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(20.56)	116.53	(26.77)	129.79
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(20.30)	97.77	(21.01)	117.36
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	1,283.27	(221.57)	(3,646.61)	(2,730.44)
6	Equity Share Capital	108.02	108.02	108.02	108.02
7	Reserves excluding revaluation reserve as at balance sheet:	-	-	-	24,416.23
8	Basic / Diluted Earning per share	(1.88)	9.05	(1.95)	10.86

NOTES:
 1. The above is an extract of detailed format of Quarterly Financial Results filed with the BSE Ltd under regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of said quarterly financial results are available on the exchange website www.bseindia.com and on the company's website www.kempnco.com.
 2. The Unaudited Financial Results for the Quarter Year Ended 30th June 2023 have been taken on record by Board of Directors at its meeting held on 7th August 2023.

On behalf of Board of Directors for KEMP & COMPANY LTD.
 Shalini D. Piramal
 Managing Director
 D.I.No - 01365328

Place : Mumbai
 Dated : 7th August 2023

INDIA GLYCOLS LIMITED
 Regd. Office: A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur - 244 713, Distt. Udham Singh Nagar (Uttarakhand)
 Phones: +91 5947 269000/269500, Fax: +91 5947 275315/269535
 Email: compliance.officer@indiaglycols.com, Website: www.indiaglycols.com • CIN: L24111UR1983PLC009087

Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2023 (₹ In Crore, except as stated)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from operations	1,898.17	1,619.74	1,875.04	1,899.44	1,620.12	1,873.97
2	Profit before interest, depreciation and Tax (EBDITA)	101.22	100.83	70.43	325.11	105.81	100.48
3	Net profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary Items)	53.11	45.90	28.80	140.27	57.70	44.33
4	Net profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary Items)	53.11	45.90	28.90	122.70	57.70	25.29
5	Net profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary Items)	40.53	40.10	22.81	98.74	51.14	27.59
6	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	40.56	40.41	22.82	99.08	50.96	27.36
7	Equity Share Capital	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96	30.96
8	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet	-	-	-	1,556.65	-	1,870.46
9	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (Not Annualised) - Basic & Diluted (In ₹)	13.09	12.95	7.37	31.89	16.52	12.87

Notes:
 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchanges Website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.indiaglycols.com).

for INDIA GLYCOLS LIMITED
 Sd/-
 U.S. BHARTIA
 Chairman and Managing Director
 DIN: 00680901

Place : Noida
 Date : 7th August, 2023

SUNDARAM MUTUAL Notice cum Addendum to the Scheme Information Document (SID) and Key Information Memorandum (KIM) of the Schemes of Sundaram Mutual Fund

REVISION OF PRODUCT LABELLING ('RISK-O-METER') OF SCHEMES OF SUNDARAM MUTUAL FUND
 NOTICE is hereby given to the investors / unit holders that pursuant to SEBI circular no. SEBI/HO/IM/D/F3/CIR/P/2020/197 dated October 05, 2020, the Risk-o-meter of the schemes of Sundaram Mutual Fund ("the Fund") shall stand revised as under.

Name of the Scheme	Existing Risk-o-meter (Based on scheme portfolio as on June 30, 2023)	Revised Risk-o-meter (Based on scheme portfolio as on July 31, 2023)
Sundaram Emerging Small Cap - Series VI		
Sundaram Emerging Small Cap - Series VII		
Sundaram Liquid Fund		

Investors are requested to note that, apart from the change in the Risk-o-meters as stated above, there is no other change in the scheme features including nature, investment objective, asset allocation pattern, terms and conditions of the above-mentioned Schemes.

All other terms and conditions of the Scheme Information Document(s) / Key Information Memorandum(s) / Statement of Additional Information will remain unchanged.

This addendum forms an integral part of the Scheme Information Document (SID) / Key Information Memorandum (KIM) / Statement of Additional Information (SAI) to the schemes of Sundaram Mutual Fund as amended from time to time.

For Sundaram Asset Management Company Ltd
 R Ajith Kumar
 Secretary & Compliance Officer

Place: Chennai
 Date: August 08, 2023

Corporate Office:
 1st & 2nd Floor, Sundaram Towers, 46, Whites Road, Royapettah, Chennai-14.
 Contact No. (India) 1860 425 7237, (NRI) +91 40 2345 2215 Fax: +91 44 2841 8108.
 www.sundarammutual.com
 Regd. Office:
 No. 21, Patillos Road, Chennai 600 002.

For more information please contact:
 Sundaram Asset Management Company Ltd
 (Investment Manager to Sundaram Mutual Fund)
 CIN: U93090TN1996PLC034615

Mutual fund investments are subject to market risks, please read all scheme related documents carefully before investing. Returns are not assured or guaranteed.

The India Cements Limited
 Registered Office: "Dhruv Building", 827, Anna Salai, Chennai 600 002.
 Corporate Office: "Coromandel Towers", 83, Santhome High Road, Chennai 600 028.
 Website: www.indiacements.co.in Email ID: Investor@indiacements.co.in CIN: L26942TN1946PLC00931

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2023 (₹. In Crore)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	1399.91	1454.27	5415.08	1443.87	1524.63	5648.25
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(98.91)	(72.01)	(587.36)	(97.22)	(64.27)	(583.94)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(98.91)	(72.01)	(406.91)	(97.22)	(64.27)	(377.77)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(75.27)	76.09	(188.55)	(87.40)	79.98	(126.89)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax))	(74.87)	80.09	(188.22)	(88.55)	84.98	(125.31)
6	Equity Share Capital	309.90	309.90	309.90	309.90	309.90	309.90
7	Other Equity (Reserves)	-	-	5288.97	-	-	5466.40
8	Earnings Per Share (of Rs 10/-each) (for continuing and discontinued operations)						
	1. Basic (In Rs.):	(2.42)	2.58	(6.07)	(2.86)	2.74	(4.04)
	2. Diluted (In Rs.):	(2.42)	2.58	(6.07)	(2.86)	2.74	(4.04)

Notes:
 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and Company's website (www.indiacements.co.in).

for THE INDIA CEMENTS LIMITED
 N.SRINIVASAN
 Vice Chairman & Managing Director

Place : Chennai
 Date : 07.08.2023

James Warren Tea Limited
 CIN : L15491AS2009PLC009345
 Registered Office : D/Deodam Tea Estate, P.O. Borahapatti, Dist. Tinsukia, Assam 786150.
 Corporate Office: Aspirations Vantage, 12, Prithvi Street, Kolkata 700071, Tel: 91-33-40341000, Fax: 91-33-40341015, E-mail: sec@jwlln.com, Website: www.jwlln.com, Contact Person: Ajayth Mundaya, Company Secretary and Compliance Officer

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS/STAKEHOLDERS OF EQUITY SHARES OF JAMES WARREN TEA LIMITED ("THE COMPANY")
 This Post Buyback Announcement ("Post Buyback PBA") regarding completion of the Buyback by the Company of the fully paid-up Equity Shares of face value of ₹ 10 each ("the Equity Shares") from the shareholders/beneficial owners of the Company ("Shareholders") is being published pursuant to Regulation 26(a) of the Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2016, as amended (the "SEBI Buyback Regulations").
 The advertisement shall be read in conjunction with the public announcement dated Friday, July 07, 2023 (the "Public Announcement") and the Letter of Offer dated Thursday, July 20, 2023 (the "Letter of Offer") issued in connection with the Buyback.
 Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein shall have the meaning ascribed to such terms in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. THE BUYBACK
 a. The Company had announced a Buyback of 7,00,000 (Seven Lakh Only) fully paid-up Equity Shares of face value of ₹ 10 each ("Equity Shares") representing 15.91% of the total number of Equity Shares in the paid-up equity share capital of the Company, on a proportionate basis from all eligible shareholders on or on the record date, i.e., Tuesday, July 18, 2023 through the tender offer process using stock exchange mechanism and through the Company's website. The Buyback Offer Size constituted 24.61% of the aggregate of the Company's paid-up capital and free reserves as per the audited financial statements of the Company as on March 31, 2022 on a stand-alone basis.
 b. The Buyback has been undertaken in accordance with circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022 dated April 12, 2022 and circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022 dated September 9, 2021, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), which prescribes mechanism for acquisition of shares through stock exchange.
 c. The tendering period for the Buyback was opened on Monday, July 24, 2023 and closed on Friday, July 28, 2023.
 d. DETAILS OF THE BUYBACK:
 i. The total number of Equity Shares bought by the Company in the Buyback was 7,00,000 Equity Shares at a price of ₹ 20.00 per Equity Share.
 ii. The total amount utilised by the Company for ₹ 1,40,00,000 (Rupees Seventeen Crores Fifty Lakh Only) including transaction costs.
 iii. The Registrar to the Buyback, i.e., M/s. Evidencia Private Limited considered a total of 346,484 valid bids for 3,46,484 Equity Shares in response to the Buyback, which is approximately 4.78 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of valid applications considered by the Registrar to the Buyback, are as follows:

Category of Shareholder	No. of Equity Shares received in the Buyback	Total No. of bids received	No. of Valid Bids	Total No. of Equity Shares tendered	No. of times (Total valid Equity Shares received to the total No. of Equity Shares proposed to be bought back)	Total No. of Equity Shares bought back
Small Shareholder	1,15,215	328	327	1,15,711	0.17	1,15,215
General	584,785	19	19	32,29,173	4.61	5,84,785
Not in master file*	-	1	-	15	-	-
Excess Bids	-	-	-	250	-	-
Total	7,00,000	347	346	32,45,149	4.78	7,00,000

*Not valid for SEBI Buyback since these were not shareholders as on Record Date.
 e. The details are listed by all Shareholders/20 SEBI Shareholders general category which were not and above their shareholding as on the record date hence such equity shares have not been considered for acceptance.
 f. All valid applications were considered for the purpose of acceptance in accordance with the SEBI Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection was dispatched by the Registrar to the Buyback to the Shareholders on Monday, August 07, 2023.
 g. The settlement of all valid bids has been completed by the Clearing Corporation of SE Limited on Friday, August 04, 2023. The funds in respect of accepted Equity Shares were paid out to the respective seller member/counterparty (Beneficial owner/beneficial holder) holding Shares in dematerialized form or non-transferable or the fund transfer instructions if accepted by the Registrar to the Buyback or otherwise. Due to any error, then the amount payable to the Eligible Shareholders will be transferred to the concerned Shareholder Banker for onward transfer to the Eligible Shareholder holding Shares in dematerialized form.
 h. Demat Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company Demat Account on Friday, August 04, 2023. The unaccepted Demat Shares have been unblocked in the account of respective Eligible Shareholder by Clearing Corporation of SE Limited on Friday, August 04, 2023.
 i. The ₹ 1,40,00,000 of Equity Shares accepted under the Buyback is currently under process and shall be completed by Monday, August 14, 2023 in accordance with SEBI Buyback Regulations.
2. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN
 a. The Capital Structure of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Particulars	Pre-Buyback		Post-Buyback	
	Number of Shares	Amount (₹. In Lakh)	Number of Shares	Amount (₹. In Lakh)
Authorised Capital	-	-	-	-
Equity Share of face value of: 10 each	1,20,00,000	1,20,00,000	1,20,00,000	1,20,00,000
Reserve, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital	44,00,000	44,00,000	27,00,000	27,00,000

b. Details of the Shareholder from whom Equity Shares exceeding 1% (or the total Equity Shares bought back) have been accepted under the Buyback are as mentioned below:

Sl. No.	Name of the Shareholder	No. of Equity Shares accepted under buyback	Equity Shares accepted as % of Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as % of total paid up Equity Share Capital
1	Adhena Investments Limited	2,74,254	39.18	7.41
2	ISS Enterprise Limited	243,207	34.74	6.50
3	Mogrove Investments Limited	42,023	6.01	1.15
4	Resara Developer Limited	2,368	0.04	0.00

c. The Shareholding pattern of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Particulars	Pre-Buyback		Post-Buyback	
	Number of Shares	% of Shares holding	Number of Shares	% of Shares holding
Promoter and persons acting in concert (Collectively) ("Promoter")	20,98,575	70.42	25,28,221	68.60
Foreign Investor (Including Non-Resident Indians, Foreign National, FII and Foreign Mutual Fund)	14,778	0.38	17,992	0.49
Financial Institutions/Bank & Mutual Funds promoted by Bank/Authorities	257	0.01	257	0.01
Others (Public, Public Bodies/Corporation)	12,86,260	29.22	11,42,229	30.90
Total	44,00,000	100.00	37,00,000	100.00

d. **MEMBER TO THE BUYBACK**
 FEDERAL SECURITIES PRIVATE LIMITED (Formerly known as FedSec Securities Limited)
 87, 3rd Floor, Jay Chambers, Dnyanesh Road, Wile Palle (East), Mumbai - 400 027, Maharashtra, India, Tel No: +91 81049 8249, E-mail: info@fedsec.in, Website: www.fedsec.in, SEBI Registration Number: INM000010163, Contact Person: Sajjan Singhvi

5. **DISCLOSURE RESPONSIBILITY**
 Pursuant to Regulation 26(a) of the SEBI Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full and final responsibility for all the information contained in this Post Buyback Public Announcement and confirms that it contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.
 For and on behalf of the Board of James Warren Tea Limited

SA1	SA2	SA3
Sudip Das, Whole Time Director, DIN: 07979791	Arup Kumar Chowdhury, Independent Director, DIN: 00997626	Ajayth Mundaya, Company Secretary & Compliance Officer

Place: Kolkata
 Date: August 07, 2023

IIFL SECURITIES
 IIFL Securities Limited
 CIN: L99999MH1996PLC132983
 Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No. B-23, MIDC, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400 604
 Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 2580 6654 • E-mail: secretarial@iifl.com • Website: www.iiflsecurities.com

NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE/OTHER AUDIO VISUAL MEANS AND BOOK CLOSURE INFORMATION
 NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, August 31, 2023 at 11.00 a.m. IST through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and rules made thereunder read with MCA General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No 02/2022 dated May 05, 2022 and Circular No 10/2022 dated December 28, 2022 (Collectively referred as "MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 (Collectively referred as "SEBI Circulars"), to transact the business, as set out in the Notice convening the 28th AGM.

In compliance with the aforesaid MCA circulars and SEBI circulars, electronic copies of the Notice of 28th AGM and the Annual Report for FY 2022-23 will be sent to all members whose email addresses are registered with the Company/Registrars & Transfer Agent (RTA)/Depository.

Members who have not registered their email addresses may provide their email address to Company's RTA at the weblink https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html to obtain the Notice of e-AGM, Annual Report and the instructions for participating in the e-AGM/e-voting along with the User Id and Password. In case of any queries, shareholder may write an email to rnt.helpdesk@linkintime.co.in. The Notice of 28th AGM and the Annual Report for FY 2022-23 will also be made available on the Company's website, i.e. www.iiflsecurities.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice will also be disseminated on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (agency for providing the remote e-voting/e-voting facility during AGM) i.e. www.evotingindia.com

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Members attending the meeting through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, August 25, 2023 to Thursday, August 31, 2023 (both days inclusive) for the purpose of ensuring AGM.

Members are requested to carefully read all the notices set out in the Notice of the 28th AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner for casting vote through remote e-voting/e-voting during AGM.

For IIFL Securities Limited
 Sd/-
 Meghal Shah
 Company Secretary

Date: August 07, 2023
 Place: Mumbai

